

ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY
Academic Year- 2015-16
Sample Paper

Class- III

Subject- Hindi

प्रश्न-1 सही उत्तर पर घेरा लगाओ |

(क) गुरुजी कौन - से आटे की रोटी खाते थे ?

बाजरा गेहूँ मक्का

(ख) बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है ?

लोहा लकड़ी पत्थर

(ग) दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी ?

रोटी तरबूज पनीर

(घ) नर्मदा, कावेरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र - ये चीज़ें क्या हैं ?

शहर जानवर नदियाँ

(ङ) इन फलों में गुठली वाला फल कौन -सा है ?

केला आम अनार

(च) मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था ?

इंग्लैंड अमेरिका भारत

(छ) अवंती की दुकान में क्या होता था ?

बुनाई रंगाई सिलाई

(ज) काबुलीवाले को कितने पैसे की मिर्च चाहिए थी ?

25 पैसे 50 पैसे 75 पैसे

(झ) किस फल को छिलके के साथ खा सकते हैं ?

लीची पपीता सेब

(ञ) गाँव के लोगों ने किस जानवर को पिंजड़े के अंदर

बाँधा था ?

बकरी गधा घोड़ा

प्रश्न-2 प्रश्नों के उत्तर दो ।

(क) शब्दों के अर्थ लिखो ।

आवाज़- _____ मंसूबा - _____

(ख) शब्दों के लिंग बदलो ।

नाना- _____ औरत _____

(ग) वचन बदलो ।

रोटी- _____ बिल्ली- _____

(घ) उदाहरण पढ़ो और नीचे दिए गए शब्द उसी तरह बनाओ ।

उदा - रंग- रंगाई

बुन- _____ पढ़- _____

(ङ) ऐसे दो कीड़ों (जंतुओं) के नाम लिखो, जो डंक मारते हैं ।

(च) नीचे दिये उदाहरण में केवल एक मात्रा बदल जाने से उसका

अर्थ भी बदल जाता है । उदाहरण देखकर ऐसे ही अन्य शब्द

लिखो ।

उदा- मेला - मैला

दिया - दीया

बेल- _____

खिल- _____

(छ) लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक - दूसरे का जूले कहते हैं ।

तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो ?

तुम्हारी सहेली / दोस्त- _____

तुम्हारी दादी / नानी- _____

(ज) तुम किस - किस के साथ अक्सर झगड़ते हो ? लिखो ।

(झ) इस वाक्य के शब्दों को आगे- पीछे करके ठीक लिखो ।

रखी मेज़ पर है वो रोटी ।

(ञ) तुम्हें किन - किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं हैं ।

(ट) रोटी को अलग - अलग जगहों पर किस - किस नाम से पुकारा जाता है ?

(ठ) हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं ?

बाल कटवाने- _____

दूध खरीदने- _____

(ड) वाक्य को ठीक करके लिखो ।

धूप बैठकर ढोकला खाया ।

(ढ) इन जानवरों की बोलियाँ लिखो ।


शेर- _____

घोड़ा - _____

(ण) वाक्य का मतलब बताओ ।

साँप पास की झाड़ी में गायब हो गया ।

(त) नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ ।



(1) साँप धीरे- धीरे रेंग रहा था

(2) क्या तुम बाज़ार चलोगी

(थ) ऐसी दो चीज़ों के नाम लिखो, जिन्हें देखकर या सोचकर मुँह में पानी आ जाता है ?

(द) दो फलों के नाम लिखो, जो हर मौसम में मिलते हैं ।

(ध) इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी ।

(1) मेहमान को खाना खिलाने के लिए- _____

(2) रंग बनाने के लिए- _____

(न) वाक्य बनाओ ।

चलते - चलते

प्रश्न-3 कविता की पंक्तियाँ पूरी करो ।

(क) एक _____ फेंक और झोली अपनी _____ ,

कुँजड़िन से _____ बेचारा ज्यों- त्यों _____ समझाकर ।

(ख) मगर मिर्च ने तुरंत _____ पर अपना ज़ोर _____ ,

मुँह सारा _____ उठा और आँखों में जल _____ आया ।

(ग) कहा _____ ने- मैं हूँ आदमी न _____ वैसा ।

जा तू अपनी _____ सिपाही, मैं खाता हूँ _____ !

प्रश्न-4 प्रश्नों के उत्तर लिखो ।

क) नाना मुझे झाड़ - फूँक वाले आदमी के पास क्यों ले गए ?

ख) बाघ की खबर पूरे गाँव में फैल गई । कैसे ?

ग) शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी ?

घ) सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा ?

प्रश्न-5 दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो ।

नरेन्द्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक धनी परिवार में हुआ था । उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी तथा पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था । नरेन्द्र अपनी माता का बहुत आदर करते थे तथा उनकी हर बात ध्यान से सुनते थे । नरेन्द्र को अपने पिता से तीव्र बुद्धि और माता से धार्मिक विचार विरासत में मिले थे । देखने में सुंदर और स्वस्थ नरेन्द्र कुश्ती, घुड़दौड़ और तैराकी- सभी में प्रवीण थे ।

संगीत से भी उन्हें बहुत प्रेम था । नरेन्द्र को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था । जब वे मेरठ में थे, तो प्रतिदिन पुस्तकालय से एक किताब लाते और एक ही दिन में पढ़कर उसे लौटा देते थे । उन्होंने पूरे विश्व को सत्य, समानता, प्रेम और सहनशीलता का संदेश दिया । आगे चलकर नरेन्द्र स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए ।

क) नरेन्द्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था ?

ख) नरेन्द्र के माता - पिता का क्या नाम था ?

ग) नरेन्द्र आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए ?

घ) शब्दों के अर्थ लिखो ।

प्रसिद्ध - _____

प्रतिदिन - _____

इ) विलोम शब्द लिखो ।

आदर - _____

सत्य- _____

प्रश्न-6 दिये गए चित्र के बारे में छः वाक्य लिखो ।